



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 वैशाख 1941 (श०)
(सं० पटना 602) पटना, वृहस्पतिवार, 9 मई 2019

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

4 मई 2019

सं० एम०-१-०१०/२०१९-४१---लोक सभा का आम निर्वाचन, २०१९ के अवसर पर निर्वाचनों का संचालन नियम, १९६१ के नियम ११ के आलोक में २९-नालन्दा, ३०-पटना साहिब, ३१-पाटलिपुत्र, ३२-आरा, ३३-बक्सर, ३४-सासाराम(अ०जा०), ३५-काराकाट एवं ३६-जहानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्ररूप ७'क' सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,





प्रवीण कुमार गुप्ता,



संयुक्त सचिव -सह-

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

प्रारूप 7 क
(नियम 10 (1) देखिए)
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची






29 नालन्दा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक-सभा/विधान-सभा-के लिए निर्वाचन ।

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटोग्राफ	अभ्यर्थी का पता	दल सम्बद्धता	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4	5	6
(i) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी					
1	कौशलेन्द्र कुमार		ग्राम-हैदरचक, पो०-खोरमपुर, थाना-इस्लामपुर, जिला-नालन्दा ।	जनता दल (यूनायटेड)	तीर
2	शशि कुमार (पिता देवेन्द्र प्रसाद)		ग्राम-मकनपुर, पो०-बड़ारा, थाना-नूरसराय, जिला-नालन्दा ।	बहु जन समाज पार्टी	हाथी
3	शशि कुमार (पिता विद्या सागर सिंह)		ग्राम-शेखपुराडीह, पो०-बंगपुर, भाया-परबलपुर, थाना-थरथरी, जिला-नालन्दा ।	नेशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी	घड़ी
(ii) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न)					
4	अनिल कुमार		ग्राम+पो०-घोसतावाँ, भाया-सिलाव, जिला-नालन्दा	भारतीय जन क्रान्ति दल (डेमोक्रेटिक)	टोप

5	अशोक कुमार आजाद		ग्राम-रेवई, पो०+थाना- टिकारी, जिला-गया।	हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर)	टेलीफोन
6	कुमार हरी चरण सिंह यादव		ग्राम-हरवंशपुर का टोला मोदन बिगहा, पो०-दरियापुर, थाना-इस्लामपुर, जिला-नालन्दा।	भारतीय मोमिन फ्रंट	काँच का गिलास
7	चिरंजीव कुमार		ग्राम-महम्मदपुर, पो०-रामघाट, थाना-नगरनौसा, जिला- नालन्दा।	शिवसेना	एअरकंडीस्नर
8	दिलीप रावत		ग्राम-शेरपुर, पो०-दरुआरा, थाना-नुरसराय, जिला-नालन्दा।	मानववादी जनता पार्टी	मोतियों का हार
9	दीनानाथ पान्डेय		ग्राम+पो०-वेशवक, थाना-इसलामपुर, जिला-नालन्दा।	भारतीय इन्कलाब पार्टी	गुब्बारा
10	पवन कुमार पाण्डेय		ग्राम+पो०-दरुआरा, थाना-नुरसराय, जिला-नालन्दा।	भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी	बाल्टी

11	पुरुषोत्तम शर्मा		ग्राम-धनहर, पो०+थाना-एकंगरसराय, जिला-नालन्दा।	नेशनल जागरण पार्टी	रेत घड़ी
12	ब्रह्मदेव प्रसाद		ग्राम-महदीपुर, पो०+थाना-तेल्हाड़ा, जिला-नालन्दा।	शोषित समाज दल	आरी
13	राजीव रंजन कुमार		ग्राम-सरैया, पो०-दामोदरपुर वल्धा, थाना-नगरनौसा, जिला-नालन्दा।	जन अधिकार पार्टी	डोली
14	राम चरित्र प्रसाद सिंह		ग्राम-वरसियावों, पो०-सालेहपुर, थाना-तेल्हाड़ा, जिला-नालन्दा।	हिन्दुस्थान निर्माण दल	पानी का टैंक
15	रामचन्द्र प्रसाद		ग्राम+पो०-दुर्गापुर, थाना-गिरियक, जिला-नालन्दा	समग्र उत्थान पार्टी	कम्प्यूटर
16	रामविलाफ पासवान		मो०-पटेल नगर खजुरबन्ना, नगर परिषद, वार्ड सं०-21, हिलसा, पो०+थाना-हिलसा, जिला-नालन्दा	राष्ट्रीय हिन्द सेना	टैक्टर चलाता किसान

17	रेखा कुमारी		ग्राम-खरजमा, पो0-कैला, थाना-नगरनौसा, भाया-चण्डी, जिला- नालन्दा।	पूर्वांचल महापंचायत	अलमारी
18	शंकर पांडेय		ग्राम+पो0-तुंगी, थाना-दीपनगर, जिला-नालन्दा।	बहु जन न्याय दल	गन्ना किसान
19	संजीत कुमार		ग्राम-लछु बिगहा, पो0-महानन्दपुर, थाना-नगरनौसा, जिला-नालन्दा।	जनतांत्रिक विकास पार्टी	सिलाई की मशीन
20	संपती कुमार		मो0-राजवंशी मार्केट बस स्टैण्ड राजगीर, थाना+पो0-राजगीर, जिला-नालन्दा।	सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी	छड़ी
21	सुनील रविदास		ग्राम+पो0-नानन्द, थाना-सिलाव, जिला-नालन्दा।	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए)	सेब

22	सुरेन्द्र सिंह		मो०-कमरुद्दीनगंज पो०-बिहारशरीफ, थाना-लहेरी, जिला-नालन्दा।	भारत प्रभात पार्टी	लूडो
23	सोहावन पासवान		साकिन-ब्रह्मस्थान, डाकघर-भोकिलापर, थाना-हिलसा, जिला-नालन्दा।	पब्लिक मिशन पार्टी	बल्लेबाज
(iii) अन्य					
24	अशोक कुमार		ग्राम-धरमपुर, पो०+थाना-हरनौत, जिला-नालन्दा।	निर्दलीय	ऑटो-रिक्शा
25	उषा देवी		ग्राम-मुस्तफापुर, पो०-पलटपुरा, थाना-मानपुर, जिला-नालन्दा।	निर्दलीय	बेबी वॉकर
26	नीता देवी		ग्राम-सिलाव डीह, पो०+थाना-सिलाव, जिला-नालन्दा।	निर्दलीय	लेडी पर्स

27	पुनीत कुमार		ग्राम+पो0-बडारा, थाना-नूरसराय, जिला-नालन्दा।	निर्दलीय	चूड़ियाँ
28	मिन्दू कुमार		ग्राम+पो0-नेपुरा, थाना-दीपनगर, जिला-नालन्दा।	निर्दलीय	फलों से युक्त टोकरी
29	मोहन विन्द		ग्राम+पो0-केशोपुर, थाना-हिलसा, जिला-नालन्दा।	निर्दलीय	बल्ला
30	मोहम्मद सुरखाब आलम		मोहल्ला-बनौलिया, पो0-बिहारशरीफ, थाना-बिहार, जिला-नालन्दा।	निर्दलीय	बेल्ट
31	रजनीश कुमार पासवान		ग्राम- पचासा, पो0-मोरातालाब, थाना-रहुई, (भागन बिगहा), जिला-नालन्दा।	निर्दलीय	स्टूल
32	राकेश पासवान		ग्राम-दरियापुर, पो0-तेतरावाँ, थाना-मानपुर, जिला-नालन्दा	निर्दलीय	बैटरी चार्ज

33	रामचन्द्र सिंह		ग्राम+पो०-इचहोस, थाना-इसलामपुर, जिला-नालन्दा	निर्दलीय	टेलीविजन
34	शैलेन्द्र चौधरी		ग्राम-धनगावाँ गढपर, पो०-धनगावाँ, थाना-तेल्हाड़ा, जिला-नालन्दा	निर्दलीय	बेन्च
35	सुधीर कुमार		ग्राम-लोदीपुर, पो०-खिरोटी, थाना-परवलपुर, जिला-नालन्दा	निर्दलीय	साइकिल पम्प

स्थान:- बिहार शरीफ

दिनांक:- 03.05.2019




(ह0) अस्पष्ट,
सहायक निर्वाची पदाधिकारी,
29 -नालन्दा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।

FORM 7A.

(See rule 10(1))

LIST OF CONTESTING CANDIDATES.

Election to the *House of the People/Legislative Assembly from the 29-Nalanda







Serial number	Name of candidate	Candidates Photographs	Address of candidate	*Party affiliation	Symbol allotted
1	2	3	4	5	6
(i) Candidates of recognised National and State Political Parties.					
1	Kaushlendra Kumar		Vill-Haidarchak, Post-Khorampur, Post+Thana- Islampur, Dist- Nalanda	Janata Dal (United)	Arrow
2	Shashi Kumar (Father- Devendra Prasad)		Vill-Makanpur, Post-Barara, Thana- Noorsarai, Dist- Nalanda	Bahujan Samaj Party	Elephant
3	Shashi Kumar (Father-Vidya Sagar Singh)		Shekpura Dih, Post-Bangpur, Bhaya- Parwalpur, Thana-Tharthari, Dist-Nalanda	Nationalist Congress Party	Clock
(ii) Candidates of registered Political Parties (Other than recognised National and State Political Parties).					
4	Anil Kumar		Vill+Post- Goshtawan, Bhaya-Silao, Dist-Nalanda	Bharatiya Jan Kranti Dal (Democratic)	Hat

5	Ashok Kumar Azad		Vill-Rawai, Post-Tekari, Thana-Tekari, Dist-Gaya	Hindustani Awam Morcha (Secular)	Telephone
6	Kumar Hari Charan Singh Yadav		Harbanshpur ka Tola Modan Bigha, P.O-Dariyapur, P.S-Islampur, Dist-Nalanda, Pin No-801303	Bhartiya Momin Front	Glass Tumbler
7	Chiranjib Kumar		Vill-Mahmadpur, Post-Ramghat, Thana-Nagarnusa, Dist-Nalanda	Shiv Sena	Air Conditioner
8	Dilip Rawat		Vill-Sherpur, Post-Daruyara, Thana-Noorsarai, Dist-Nalanda	Maanavvaadi Janta Party	Bead Necklace
9	Dinanath Pandey		Vill+Post-Veswak, Thana-Islampur, Dist-Nalanda	Bharatiya Inqalab Party	Balloon
10	Pawan Kumar Pandey		Vill+Post-Daruyara, Thana-Noorsarai, Dist-Nalanda	Bhartiya Lokmat Rashtrawadi Party	Bucket

11	Purushotam Sharma		Vill-Dhanhar, Post+Thana- Ekangarsrai, Dist-Nalanda	National Jagaran Party	Hour Glass
12	Brahamdev Prasad		Vill-Mahdipur, Post+Thana- Telhara, Dist- Nalanda	Shoshit Samaj Dal	Saw
13	Rajeev Ranjan Kumar		Vill-Saraiya, Post- Damodarpur Valdha, Thana- Nagarnusa, Dist- Nalanda	Jan Adhikar Party	Dolli
14	Ram Charitra Prasad Singh		Vill-Varsiyawan, Post-Salehpur, Thana-Telhara, Dist-Nalanda	Hindusthan Nirman Dal	Water Tank
15	Ramchandra Prasad		Vill+P.O- Durgapur, Thana-Giriyak, Dist-Nalanda	Samagra Utthan Party	Computer
16	Ramvilaf Paswan		Mo-Patel Nagar Khajurbanna, Nagar Parisad, Ward No-21, Hilsa, P.O+P.S- Hilsa, Dist- Nalanda	Rashtriya Hind Sena	Tractor Chalata Kisan

17	Rekha Kumari		Vill-Kharjamma, Post-Kaila, Thana- Nagarnusa, Bhaya-Chandi Dist-Nalanda	Purvanchal Mahapanchayat	Almirah
18	Shankar Pandey		Vill+P.O-Tungi, Thana- Deepnagar, Dist- Nalanda	Bahujan Nyay Dal	Ganna Kisan
19	Sanjeet Kumar		Vill-Lakchu Bigha, Post- Mahanandpur, Thana- Nagarnusa, Dist- Nalanda	Jantantrik Vikash Party	Sewing Machine
20	Sampati Kumar		Mo-Rajbanshi Market Bus Stand Rajgir, P.S+P.O-Rajgir, Dist-Nalanda	Suheldev Bharatiya Samaj Party	Walking Stick
21	Sunil Ravidas		Vill+Post- Nanand, Thana- Silao, Dist- Nalanda	Republican Party of India (A)	Apple
22	Surendra Singh		Mo- Kamrudinganj, Post-Biharsharif, Thana-Laheri, Dist-Nalanda	Bharat Prabhat Party	Ludo

23	Sohavan Paswan		Vill-Barhmsthan, Post-Bhokila Par, Thana-Hilsa, Dist-Nalanda	Public Mission Party	Batsman
(iii) Other candidates.					
24	Ashok Kumar		Vill-Dharampur, Post+Thana- Harnaut, Dist- Nalanda	Independent	Auto-Rickshaw
25	Usha Devi		Vill-Mustaffapur, Post-Palatpura, Thana-Manpur, Dist-Nalanda	Independent	Baby Walker
26	Nita Devi		Vill-Silaodih, P.O+P.S-Silao, Dist-Nalanda	Independent	Lady Purse
27	Punit Kumar		Vill+P.O-Barara, P.S-Noorsarai, Dist-Nalanda	Independent	Bangles
28	Mintu Kumar		Vill+P.O-Nepura, Thana- Deepnagar, Dist- Nalanda	Independent	Basket Containing Fruits

29	Mohan Bind		Vill+Post- Keshopur Thana-Hilsa, Dist-Naladna	Independent	Bat
30	Mohammad Surkhab Alam		Mohalla- Banoliya, Post- Biharsharif, Thana-Bihar, Dist-Nalanda	Independent	Belt
31	Rajnish Kumar Paswan		Vill-Pachasa, Post-Moratalab, Thana-Rahui (Bhagan Bigha) Dist-Nalanda	Independent	Stool
32	Rakesh Paswan		Vill-Dariyapur, P.O-Tetrawa, Thana-Manpur, Dist-Nalanda	Independent	Battery Torch
33	Ramchandra Singh		Vill+Post-Ichhos, Thana-Islampur, Dist-Nalanda	Independent	Television
34	Shailendra Chaudhari		Vill-Dhangawan Gadh Par, Post- Dhangawan, Thana-Telhara, Dist-Nalanda	Independent	Bench

35	Sudhir Kumar		Vill-Lodipur, Post-Khirouti P.S-Parwalpur. Dist-Nalanda	Independent	Bicycle Pump
----	--------------	---	--	-------------	--------------

Place : Biharsharif

Date : 03-05-2019

Sd. Illegible,
Assistant Returning Officer,
29-Nalanda Parliamentary Constituency.

प्ररूप 7क

[नियम 10 (1) देखिए]

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

30—पटना साहिब संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटो	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवर्तित प्रतीक
1	2	3	4	5	6
(i) मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी					
1.	रवि शंकर प्रसाद		42—ईस्ट बोरिंग रोड, कवि रमण पथ, नागेश्वर कॉलनी, पटना—800001	भारतीय जनता पार्टी	कमल
2.	शत्रुघ्न सिन्हा		भुवनेश्वर निवास, गृह सं० 12 डी० ब्लॉक, कदमकुआँ, पटना—800003	इंडियन नेशनल काँग्रेस	हाथ
(ii) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न)					
3.	अखिलेश कुमार		मोहल्ला—सरिस्ताबाद पश्चिमी टोला, पो० अनिशाबाद, थाना—गर्दनीबाग, जिला—पटना	असली देशी पार्टी	बोतल
4.	अनामिका कुमारी		एस०यू०सी०आई० (सी०) कार्यालय, नाला रोड, पटना—800004	सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट)	बैटरी टार्च
5.	प्रभाष चन्द्र शर्मा		पहलवान घाट, दुजरा, पटना—800001	वंचित समाज पार्टी	टीलर

6.	बसंत सिंह		131, रोड नं०-2, राजेन्द्र नगर, पटना-16	भारतीय जन क्रान्ति दल (डेमाक्रैटिक)	हैट
7.	महबूब आलम अंसारी		174, आनंदपुरी, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड, पो० जी०पी०ओ० थाना-श्रीकृष्णापुरी, पटना-800001	भारतीय मोमिन फ्रंट	काँच का गिलास
8.	राजेश कुमार		मिडिल स्कूल गली, बख्तियारपुर, पटना।	जनता पार्टी	ऑटो-रिक्षा
9.	रीता देवी		शिवांजली हाउस, रोड नं०-11ई० राजेन्द्र नगर, थाना- कदमकुँआ, जिला-पटना-16	विकासशील इंसान पार्टी	आदमी व पाल युक्त नौका
10.	सुमित रंजन सिन्हा		चौधरी टोला, थाना-सुलतानगंज, महेन्द्र, पटना-6	शिवसेना	कप और प्लेट
(iii) अन्य अभ्यर्थी					
11.	अमित कुमार गुप्ता		तारणी प्रसाद लेन, पश्चिम दरवाजा, पटना सिटी-800008	निर्दलीय	सेब
12.	अरविन्द कुमार		गोसाई टोला, पाटलीपुत्रा कॉलनी, कुदटी मशीन के पास, पटना-13	निर्दलीय	टेलीफोन

13.	अशोक कुमार गुप्ता		बेलवरगंज, पो0 गुलजारबाग, पटना-800007	निर्दलीय	हैलीकॉप्टर
14.	कुमार रौनक		चित्रगुप्त नगर, पटना	निर्दलीय	कम्प्यूटर
15.	जावेद		खानमिर्जा, थाना-सुलतानगंज, जिला-पटना	निर्दलीय	एअरकंडीस्नर
16.	निमेष शुक्ला		फ्लैट नं0-501, के0पी0 इन्कलेव, नियर अभियंता नगर मोड़, बेली रोड, पटना-801503	निर्दलीय	फुटबॉल
17.	रानी देवी		दीघा, मरियम कॉलनी, थाना-दीघा, पटना 800011	निर्दलीय	खाने से भरी थाली
18.	विष्णु देव		शिवपुर लेन, महेन्द्र, पटना	निर्दलीय	बाल्टी

स्थान:- पटना
तारीख:- 02.05.2019

(ह0) अस्पष्ट,
रिटर्निंग ऑफिसर
30-पटना साहिब संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।



FORM 7A





[See Rule 10(l)]

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

Election to the House of the People from 30-Patna Sahib Parliamentary Constituency

Sl. No.	Name of candidate	Candidate's Photo	Address of candidate	Party affiliation	Symbol allotted
1	2	3	4	5	6
(i) Candidates of recognised National and State Political Parties.					
1	Ravi Shankar Prasad		42, East Boring Road, Kavi Raman Path, Nageshwar Colony, Patna-800001	Bharatiya Janata Party	Lotus
2	Shatrughan Sinha		Bhuvaneshwar Niwas, 12 D-Block, Kadamkuan, Patna-800003	Indian National Congress	Hand
(ii) Candidates of registered political parties (other than recognised National and State Political Parties)					
3.	Akhilesh Kumar		Mohalla-Saristabad, Paschimi Tola, P.O. Anishabad, P.S. Gardanibagh, District- Patna	Asli Deshi Party	Bottle
4.	Anamika Kumari		SUCI (C) Karyalay, Nala Road, Patna-800004	Socialist Unity Centre of India (Communist)	Battery Torch

5.	Prabhash Chandra Sharma		Pahalwan Ghat, Dujra, Patna-800001	Vanchit Samaj Party	Tiller
6.	Basant Singh		131, Road No. 2, Rajendra Nagar, Patna- 16	Bharatiya Jan Kranti Dal (Democratic)	Hat
7.	Mahboob Alam Ansari		174, Anandpuri, West Boring Canal Road, P.O. GPO, PS. Shri Krishnapuri, Patna-800001	Bharatiya Momin Front	Glass Tumbler
8.	Rajesh Kumar		Middle School Gali, Bakhtiyarpur, Patna	Janata Party	Auto- Rickshaw
9.	Rita Devi		Shivanjali House, Road No. 11E, Rajendra Nagar, P.S. Kadamkuan, District- Patna-16	Vikassheel Insaan Party	Boat with Man and Sail
10.	Sumit Ranjan Sinha		Choudhary Tola, P.S. Sultanganj, Mahendru, Patna-6	Shiv Sena	Cup & Saucer

(iii) Other candidates						
11.	Amit Kumar Gupta		Tarani Prasad Lane, Paschim Darwaza, Patna City- 800008	Independent	Apple	
12.	Arvind Kumar		Gosain Tola, Patliputra Colony, Kutti Machine ke Pass, Patna-13	Independent	Telephone	
13.	Ashok Kumar Gupta		Belwarganj, P.O. Gulzarbagh, Patna-800007	Independent	Helicopter	
14.	Kumar Raunak		Chitragupta Nagar, Patna	Independent	Computer	
15.	Javed		Khan Mirza P.S. Sultanganj, Patna	Independent	Air Conditioner	
16.	Nimesh Shukla		Flat No. 501, K.P. Enclave, Near Abhiyanta Nagar More, Bailey Road, Patna-801503	Independent	Football	

17.	Rani Devi		Digha, Maryam Colony, P.S. Digha, Patna 800011	Independent	Plate Containing Food
18.	Vishnu Dev		Shivpur Lane, Mahendru, Patna	Independent	Bucket

Place:- Patna
Date 02-05-2019






Sd./Illegible,
Returning Officer
30- Patna Sahib Parliamentary Constituency.








प्ररूप-7क

[नियम 10 (1) देखिए]

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

31-पाटलिपुत्र लोक सभा निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटोग्राफ	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4	5	6
(i) मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी					
1	मो० कलीमुल्लाह		न्यू मिल्लत कॉलोनी, सेक्टर-1, ग्राम-नोहसा, पो०+थाना-फुलवारी शरीफ, जिला-पटना	बहु जन समाज पार्टी	हाथी
2	मीसा भारती		208, कौटिल्यनगर, एम०पी०एम०एल०ए० कॉलोनी, पो०-बी०भी० कॉलेज एस०ओ०, जिला-पटना	राष्ट्रीय जनता दल	लालटेन
3	राम कृपाल यादव		गोरिया टोली, स्टेशन रोड, पो०-जी०पी०ओ०, पटना-800001	भारतीय जनता पार्टी	कमल
(ii) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न)					
4	इंदू देवी मिश्रा		बोचाचक, फुलवारी शरीफ, पटना-801505	भारतीय जन क्रान्ति दल (डेमोक्रेटिक)	टोप
5	मो० तौफीक अहमद		ईशापुर, फुलवारीशरीफ, पटना-801505	वोटर्स पार्टी इण्टरनेशनल	गैस सिलेण्डर

6	दुर्गेश नंदन सिंह उर्फ दुर्गेश यादव		सिपारा, पो0-ढेलवाँ, थाना-बेऊर, पटना-20	राष्ट्रीय जनविकास पार्टी (डेमोक्रेटिक)	बाँसुरी
7	नागमणि		ग्राम+पो0+थाना-धनरुआ, जिला-पटना	शिवसेना	सिलाई की मशीन
8	बिनोद दास		नयाचक, फुलवारीशरीफ, पटना	भारतीय बहु जन कॉंग्रेस	मोतियों का हार
9	बिन्दु देवी		ग्राम-पकरी, पो0-रेवासी, थाना-रीगा, जिला-सीतामढ़ी, पिन-843327	राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी	फूलगोभी
10	राम नारायण मांझी		मो0-चौहरमलनगर, पो0-अनिसाबाद, थाना-फुलवारीशरीफ, जिला-पटना	संख्यानुपाती भागीदारी पार्टी	कप और प्लेट
11	राम निरंजन राय		एन-6, न्यू पुनाईचक, शास्त्रीनगर, पटना-23	राष्ट्रवादी चेतना पार्टी	डीजल पम्प
12	राम प्रवेश रजक		जय हिन्द कॉलोनी रानीपुर, थाना+पो0-फुलवारी शरीफ, पटना	पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक)	मेज

13	ललिता राय		के० / ऑफ—मोतीचन्द यादव, सगुना गाँधी मुर्ति, पो०—दानापुर कैन्ट, पटना	बहु जन न्याय दल	गन्ना किसान
14	वकील अहमद		मो०—मदरसा रोड, इस्लामिया मोहल्ला, पो०+थाना—गोपालगंज, जिला—गोपालगंज	जनता पार्टी	प्रैशर कुकर
15	शिव कुमार सिंह		जीवराखन टोला, मनेर, पटना	अपना किसान पार्टी	चारपाई
16	शैलेश कुमार		ग्राम—नवादा, पोस्ट—मुबारकपुर, थाना—फुलवारीशरीफ, जिला—पटना	भारतीय आम अवाम पार्टी	शिमला मिर्च
17	सतीश कुमार		छितनावॉ खासपुर, पो०—दाउदपुर, थाना—मनेर, जिला—पटना—801502	भारतीय मोमिन फ्रंट	काँच का गिलास
18	सोहन राय		परसा बाजार, रहीमपुर, परसा, पटना, बिहार, पीन—804453	युवा क्रांतिकारी पार्टी	तरबूज
(iii) अन्य अभ्यर्थी					
19	जितेन्द्र विन्द		ग्राम—मुगिला, पो०—शंकरपुर इमामगंज, थाना—खीरी मोड़, जिला—पटना	निर्दलीय	चिमनी

20	पुपुल कुमार शर्मा		मो०-जीनपुरा रोड, बिहटा	निर्दलीय	ट्रैक्टर चलाता किसान
21	ब्रजेश्वर प्रसाद सिंह		ग्राम-ढनढनाचक, पो०-निसरपुरा, थाना-बेउर, जिला-पटना	निर्दलीय	गैस का चूल्हा
22	मंटु कुमार		ग्राम-दौलतपुर, थाना-बिहटा, पो०-बिहटा, भाया-कुंजवाँ, जिला-पटना (बिहार)	निर्दलीय	पानी का टैंक
23	रमेश कुमार शर्मा		ग्राम-कोपा कलां, नौबतपुर, जिला-पटना	निर्दलीय	पानी का जहाज
24	राजेश कुमार		पी/45 नरहट निवास फेज-1, आशियानानगर, पटना-25	निर्दलीय	ट्रक
25	सुरेश पासवान		मोहिउद्दीनपुर, पो०-पुनपुन, थाना-परसाबाजार, जिला-पटना	निर्दलीय	हैलीकॉप्टर

स्थान :- पटना

तारीख :- 02.05.2019




(ह०) अस्पष्ट,
निर्वाची पदाधिकारी,
31-पाटलिपुत्र संसदीय
निर्वाचन क्षेत्र।

FORM-7A







[See Rule 10(l)]

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

Election to the House of the People from the 31-Patliputra Parliamentary Constituency.

Sl. No.	Name of candidate	Candidates Photograph	Address of candidates	Party affiliation	Symbol allotted
1	2	3	4	5	6
(i) Candidates of recognised National and State Political Parties.					
1	MD. Kalimullah		New Millat Colony, Sector-1, Vill-Nohsa, PO+P.S.- Phulwarisharif, District-Patna-801505	Bahujan Samaj Party	Elephant
2	Misha Bharti		208, Kautilyanagar, M.P.M.L.A. Colony, P.O.-B.V. College S.O., District-Patna	Rashtriya Janata Dal	Hurricane Lamp
3	Ram Kripal Yadav		Goriya Toli, Station Road, P.O.-G.P.O., Patna-800001	Bharatiya Janata Party	Lotus
(ii) Candidates of registered political parties (other than recognised National and State Political Parties)					
4	Indu Devi Mishra		At-Bochachak, Phulwarisharif, Patna-801505	Bharatiya Jan Kranti Dal (Democratic)	Hat
5	Md. Toufique Ahmad		Ishapur, Phulwarisharif, Patna-801505	Voters Party International	Gas Cylinder

6	Durgesh Nandan Singh alias Durgesh Yadav		Sipara, P.O.-Dhelwan, P.S.-Beur, Patna-20	Rashtriya Janvikas Party (Democratic)	Flute
7	Nagmani		Vill+PO+P.S.-Dhanarua, District-Patna	Shiv Sena	Sewing Machine
8	Vinod Das		Nayachak, Phulwarisharif, Patna	Bharatiya Bahujan Congress	Bead Necklace
9	Bindu Devi		Vill-Pakri, P.O.-Revasi, P.S.-Riga, District-Sitamarhi, Pin-843327	Rashtriya Jansambhavna Party	Cauliflower
10	Ram Narayan Manjhi		Moh.-Chauharmalnagar, P.O.-Anisabad, P.S.-Phulwarisharif, District-Patna	Sankhyanupati Bhagidari Party	Cup & Saucer
11	Ram Niranjana Roy		N-6, New Punaichk, Shastrinagar, Patna-23	Rashtrawadi Chetna Party	Diesel Pump
12	Ram Pravesh Rajak		Jai Hind Colony Ranipur, P.S.+P.O.-Phulwarisharif	Peoples Party of India (Democratic)	Table

13	Lalita Ray		C/o-Motichand Yadav, Saguna Gandhi Murti, P.O.-Danapur Cant, District-Patna	Bahujan Nyay Dal	Ganna Kisan
14	Wakil Ahmad		Madarsa Road, Islamiya Mohalla, P.O.+P.S.-Gopalganj, District-Gopalganj	Janata Party	Pressure Cooker
15	Shiv Kumar Singh		Jeevanrakhan Tola, Maner, Patna	Apna Kisan Party	Cot
16	Shailesh Kumar		Vill-Nawada, P.O.-Mubarakpur, P.S.-Phulwarisharif, District-Patna	Bhartiya Aam Awam Party	Capsicum
17	Satish Kumar		Chitnawan Khaspur, P.O.-Daudpur, P.S.- Maner, District-Patna	Bhartiya Momin Front	Glass Tumbler
18	Sohan Ray		Parsa Bazar, Rahimpur, Parsa, Patna, Parsa, Bihar, Pin-804453	Yuva Krantikari Party	Water Melon
(iii) Other candidates.					
19	Jitendra Bind		Vill-Mugila, P.O.-Shankarpur Imamganj, P.S.-Khiri More, District-Patna	Independent	Chimney

20	Pupul Kumar Sharma		Moh.-Jinpura Road, Bihta	Independent	Tractor Chalata Kisan
21	Brajeshwar Prasad Singh		Vill-Dhanadhnachak, P.O.-Nisarpura, P.S.-Beur, District-Patna	Independent	Gas Stove
22	Mantu Kumar		Vill-Daulatpur, P.S.-Bihta, P.S.-Bihta, Via-Kunjwan, District-Patna (Bihar)	Independent	Water Tank
23	Ramesh Kumar Sharma		Vill-Kopa Kalan, Naubatpur, District-Patna	Independent	Ship
24	Rajesh Kumar		P/45 Narhat Niwas, Phase-1, Ashiyananagar, Patna	Independent	Truck
25	Suresh Paswan		Mohiuddinpur, P.O.-Punpun, P.S.-Parsabazar, District-Patna	Independent	Helicopter

Place :- Patna

Date :-02-05-2019

Sd./Illegible,
Returning Officer,
31-Patiputra Parliamentary Constituency.

प्ररूप 7क

[नियम 10 (1) देखिए]

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

32-आरा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटोग्राफ	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4	5	6
(i) मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी					
1.	मनोज यादव		ग्राम-बिहिया गाँव, वार्ड न०-14, पो०+थाना-बिहिया, जिला-भोजपुर पिन कोड न०-802152	बहु जन समाज पार्टी	हाथी
2.	आर० के० सिंह		903, मणि ऑर्किड, आर०पी०एस० मोड़, बेली रोड, पटना-801503	भारतीय जनता पार्टी	कमल
(ii) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न)					
3	अनिल कुमार सिंह		मु० जगदेव नगर अनाईठ, पो०-अनाईठ, थाना-आरा नवादा जिला-भोजपुर, बिहार	प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया)	चाबी
4	कृष्ण पासवान		ग्राम-काजीचक, पो०+थाना-संदेश, जिला-भोजपुर	भारतीय क्रांति वीर पार्टी	गन्ना किसान
5	भारतभूषण पाण्डेय		फ्रेण्ड्स कॉलोनी, आरा-802301 (बिहार)	अखिल भारतीय जन संघ	ट्रैक्टर चलाता किसान
6	राज गिरी भगत		ग्राम-कृष्ण विहार, लख न०-11 (बहिरो), पो०-आरा, जिला-भोजपुर	शोषित समाज दल	आरी

7	राजू यादव		ग्राम-गोरपा, पो0-डिलियाँ, थाना-चौरी, जिला-भोजपुर	कम्यूनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट- लेनिनिस्ट)(लिबरेशन)	तीन सितारों वाला झंडा
(iii) अन्य अभ्यर्थी					
8.	डा0 कुमार शीलभद्र		मारुति सेवा-सदन, मेन रोड, जीरो माइल अनाइठ, आरा, पो0-अनाइठ, थाना-आरा नवादा, जिला-भोजपुर, (बिहार)	निर्दलीय	फलों से युक्त टोकरी
9.	राम राज सिंह		ग्राम-फिनगी, पो0+थाना-बिहियां, जिला-भोजपुर, पिन-802152	निर्दलीय	सेब
10.	लक्ष्मण कुमार ओझा		ग्राम-बड़का विशुपुर (देवमलपुर), पो0-महुआर, थाना-शाहपुर, भोजपुर, बिहार	निर्दलीय	ऑटो-रिक्षा
11.	शिवदास सिंह		पकड़ी मदन जी का हाता, आरा, पो0-आरा-नवादा, जिला-भोजपुर, पिन कोड-802301, बिहार	निर्दलीय	फुटबॉल

स्थानआरा
तारीख02.05.2019







(ह0) अस्पष्ट,
निर्वाची पदाधिकारी,
32-आरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।

FORM 7A

[See Rule 10(l)]

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

Election to the House of the People from the **32-Ara Parliamentary Constituency.**

SL. NO.	Name of candidate	Candidates Photograph	Address of candidate	Party affiliation	Symbol allotted
1	2	3	4	5	6
(i) Candidates of recognised National and State Political Parties.					
1	Manoj Yadav		Vill-Bihiyan Gaon, Ward No-14, PO+PS-Bihiyan	Bahujan Samaj Party	Elephant
2	R. K. Singh		903, Mani Orchid, R.P.S. More, Bailey Road, Patna- 801503	Bharatiya Janata Party	Lotus
(ii) Candidates of registered political parties (other than recognised National and State Political Parties)					
3	Anil Kumar Singh		Mo-Jagdev Nagar Anaith, PO-Anaith, PS-Ara Nawada, Bhojpur (Bihar)	Pragatishil Samajwadi Party(Lohia)	Key
4	Krishna Paswan		Vill-Kajichack PO+PS-Sandesh, Dist.-Bhojpur	Bhartiya Kranti Vir Party	Ganna Kisan
5	Bharat Bhushan Pandey		Friends Colony, Ara 802301 (Bihar)	Akhil Bharatiya Jan Sangh	Tractor Chalata Kisan
6	Raj Giri Bhagat		Vill-Krishana Vihar, Lukh No.-11 (Bahiro). PO-Ara, Dist.-Bhojpur	Shoshit Samaj Dal	Saw

7	Raju Yadav		Vill-Gorpa, PO-Diliya, PS-Chauri, Dist.-Bhojpur	Communist Party of India (Marxist-Leninist)(Liberation)	Flag with Three Stars
(iii) Other candidates.					
8	Dr. Kumar Sheelbhadra		Maruti Seva-Sadan, Main Road, Zero Mile, Anaith, Ara, PO-Anaith, PS-Ara Nawada, Dist-Bhojpur	Independent	Basket Containing Fruits
9	Ram Raj Singh		Vill-Finagi, Post+P.S-Bihiya, Dist.-Bhojpur, Pin-802152	Independent	Apple
10	Lakshaman Kumar Ojha		Vill-Baraka Bishupur (Deomalpur), P.O-Mahuar PS-Shahpur, Bhojpur, Bihar,	Independent	Auto-Rickshaw
11	Shiv das Singh		Pakari Madan Jee ka Hata, Ara, PO-Ara- Nawada, Dist.-Bhojpur, Pin Code-802301, Bihar	Independent	Football

Place :- ARA

Date :-02-05-2019


Sd./Illegible,
Returning Officer,
32-Ara Patriputra Parliamentary Constituency




प्ररूप 7क


[नियम 10 (1) देखिए]

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

33-बक्सर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटोग्राफ	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4	5	6
(i) मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी।					
1	अश्विनी कुमार चौबे		ग्राम-टी०एन० सिंह लेन, मानिक सरकार, आदमपुर, भागलपुर	भारतीय जनता पार्टी	कमल
2	जगदानन्द सिंह		ग्राम+पो०-सहुका थाना-रामगढ़, जिला-कैमूर (भभुआ)	राष्ट्रीय जनता दल	लालटेन
3	सुशील कुमार सिंह		ग्राम-भिरखिरा, पो०-जमुरना, जिला-कैमूर, 821110	बहु जन समाज पार्टी	हाथी
(ii) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न)					
4	अनिल कुमार		ग्राम+पो०-सोहनीपट्टी, बक्सर बिहार	जनतांत्रिक विकास पार्टी	सिलाई की मशीन
5	अनिल कुमार राय		ग्राम-अर्जुनपुर, पोस्ट-राजापुर, जिला-बक्सर 802131	राष्ट्रीय दल युनाइटेड	माचिस की डिब्बी
6	उदय नारायण राय उर्फ लुड्डु राजभर		ग्राम-बारुपुर, पो०- सगरांव-मगरांव, जिला-बक्सर बिहार 802122	सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी	छड़ी

7	धनजीत सिंह उर्फ धनजीत कुमार		ग्राम-खरौनी, पो0-सखुआँ, थाना-उदवंतनगर जिला-भोजपुर बिहार-802206	वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल	गैस सिलेण्डर
8	रवि राज		ग्राम-पी0पी0 रोड, वार्ड नं0-26, बक्सर नगर परिषद, जिला-बक्सर	प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया)	चाबी
9	विनोद कुमार विक्रान्त		ग्राम-जय हिंद कॉलनी, न्यू रानीपुर, फुलवारी शरीफ, पटना 801505	पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक)	मेज
10	सन्तोष कुमार यादव		ग्राम+पो0-महदह, थाना-बक्सर मुफसिल, जिला-बक्सर	बहु जन मुक्ति पार्टी	चारपाई
(iii) अन्य अभ्यर्थी					
11	अरविन्द कुमार पाण्डेय उर्फ छोटे बाबा		ग्राम+पो0-भलुनी धाम, थाना-दिनारा, जिला-रोहतास	निर्दलीय	हैलीकॉप्टर
12	जय प्रकाश राम		ग्राम-साहोपारा, थाना-बक्सर औ0, जिला-बक्सर	निर्दलीय	एअरकंडीस्नर
13	रणजीत सिंह उर्फ राणा जी		ग्राम+पो0-चौगाई, थाना-मुरार, जिला-बक्सर	निर्दलीय	फुटबॉल
14	राकेश कुमार राय उर्फ गुड्डु राय		ग्राम-मुसाफीर गंज, वार्ड नं0-10, पो0-गजाधरगंज, थाना-बक्सर नगर, जिला-बक्सर	निर्दलीय	सीसीटीवी कैमरा

15	रामचन्द्र सिंह यादव		ग्राम-भभुआ,वार्ड नं०-25, पो०+थाना-भभुआ, जिला-कैमूर	निर्दलीय	अलमारी
----	---------------------	---	--	----------	--------

स्थान :- बक्सर







तारीख :- 03.05.2019









(ह०) अस्पष्ट,
सहायक निर्वाची पदाधिकारी,
33-बक्सर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।


I[FORM 7A

[See rule 19(I)]

LIST OF CONTESTING CANDIDATESElection to the House of the People from the **33-Buxar** Parliamentary Constituency.

Sl. No.	Name of the candidate	Candidate photograph	Address of the candidate	*Party affiliation	Symbol allotted
1	2	3	4	5	6
(i) Candidates of recognised National and State Political parties.					
1	Ashwini Kumar Choubey		T.N. Singh Lane, Manik Sarkar, Adampur, Bhagalpur	Bharatiya Janata Party	Lotus
2	Jagadanand Singh		Vill+PO-Sahuka, PS-Ramgarh, Dist-Kaimur (Bhabua)	Rashtriya Janata Dal	Hurricane Lamp
3	Sushil Kumar Singh		Vill-Bhirkhira, PO-Jamurana, Dist-Kaimur 821110	Bahujan Samaj Party	Elephant
(ii) Candidates of Registered Political Parties (Other than Recognised National and State Political Parties).					
4	Anil Kumar		Village+Post-Sohanipatti, Buxar Bihar	Jantantrik Vikas Party	Sewing Machine
5	Anil Kumar Rai		Village-Arjunpur, Post-Rajapur, District-Buxar 802131	Rashtriya Dal United	Match box
6	Uday Narayan Rai @ Luddu Rajbhar		Village-Barupur, Po- Sangraon-Mangraon, District-Buxar Bihar 802122	Suheldev Bharatiya Samaj Party	Walking Stick

7	Dhanjit Singh @ Dhanjit Kumar		Vill.-Kharauni, Po-Sakhuan, PS-Udwanthnagar, District-Bhojpur Bihar-802206	Voters Party International	Gas Cylinder
8	Ravi Raj		Village-P.P. Road, Ward No. 26, Buxar Nagar Parishad, District-Buxar	Pragatishil Samajwadi Party (Lohia)	Key
9	Binod Kumar Bikrant		Village-Jai Hind Colony, New Ranipur, Phoolwari Sharif, Patna 801505	Peoples Party of India (Democratic)	Table
10	Santosh Kumar Yadav		Village+Post -Mahdah PS-Buxar Mufasil, District-Buxar	Bahujan Mukti Party	Cot
(iii) Other candidates.					
11	Arvind Kumar Pandey @ Chote Baba		Village+Post-Bhaluni Dham, PS-Dinara, District-Rohtas	Independent	Helicopter
12	Jay Prakash Ram		Village-Sahopara, PS-Buxar Industrial, District-Buxar	Independent	Air Conditioner
13	Ranjit Singh @ Rana ge		Village+post-Chaugain, PS-Murar, District-Buxar	Independent	Football
14	Rakesh Kumar Ray @ Guddu Ray		Village-Musafir Ganj Ward No. 10, PO-Gajadhar Ganj, PS-Buxar Nagar, District-Buxar	Independent	CCTV Camera

15	Ramchandra Singh Yadav		Village-Bhabua Ward No. 25, Po+PS-Bhabua, District-Kaimur	Independent	Almirah
----	------------------------------	---	--	-------------	----------------

Place :- **Buxar**

Date :- **03-05-2019**





**Sd./Illegible,
Assistant Returning Officer.
33-Buxar Parliamentary Constituency.**

प्ररूप 7क

नियम 10 (1) देखिए]

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

34-सासाराम (अ0जा0) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटोग्राफ	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4	5	6
(i) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी					
1	छेदी पासवान		ग्राम- तकिया, पोस्ट-तकिया, थाना-सासाराम, जिला-रोहतास, बिहार	भारतीय जनता पार्टी	कमल
2	मनोज कुमार		ग्राम- सकरी, पोस्ट-कुदरा, थाना- कुदरा, जिला-कैमूर	बहु जन समाज पार्टी	हाथी
3	मीरा कुमार		डी-1029, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, पोस्ट+थाना-न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110025	इंडियन नेशनल काँग्रेस	हाथ
(ii) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न)					
4	धर्मराज पासवान		ग्राम- भोरेयाँ, पोस्ट-खरेन्दा, थाना- बेलांव, जिला-कैमूर	लोक जन विकास मोर्चा	केक

क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटोग्राफ	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4	5	6
5	निर्मला देवी		प्रखण्ड कॉलनी, नगर परिषद, बक्सर, अंचल-बक्सर, जिला-बक्सर	प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया)	चाबी
6	विद्या ज्योति		ग्राम- भिखारीडीह, पोस्ट- नोनसारी, थाना- नोखा, जिला-रोहतास	बहु जन मुक्ति पार्टी	चारपाई
7	सत्यनारायण राम		ग्राम-लरियां, पोस्ट- बम्हौर (खास), थाना-मोहनियां, जिला-कैमूर	आंबेडकराईट पार्टी ऑफ इंडिया	कोट
(iii) अन्य अभ्यर्थी					
8	अशोक कुमार पासवान		ग्राम- भोखरी, पोस्ट-सैथा, थाना- सोनहन, जिला- कैमूर	निर्दलीय	डबल रोटी
9	अशोक बैठा		ग्राम-हथिनी, पोस्ट-हथिनी, थाना-नोखा, जिला-रोहतास	निर्दलीय	कप और प्लेट

क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटोग्राफ	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4	5	6
10	रघुनी राम शास्त्री		ग्राम—बिरहारा, पोस्ट—पुरहारा, थाना—हसपुरा, जिला—औरंगाबाद (बिहार)	निर्दलीय	आरी
11	रजनीकान्त चौधरी		ग्राम—सपनौतियां, पोस्ट—सैंथा, थाना—सोनहन, जिला—कैमूर (भभुआ)	निर्दलीय	ट्रैक्टर चलाता किसान
12	रामएकबाल राम		ग्राम—बिश्रामपुर, पोस्ट—छोटकी चेनारी, थाना—शिवसागर, जिला—रोहतास	निर्दलीय	गैस सिलेण्डर
13	सत्य नारायण पासवान		ग्राम—बहेरी, पोस्ट— अख्तियारपुर, थाना—करगहर, जिला—रोहतास, बिहार	निर्दलीय	कैंची

स्थान :- कैमूर (भभुआ)

तारीख :- 02.05.2019

(ह०) अस्पष्ट,
निर्वाची पदाधिकारी,
34—सासाराम(अ०जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।






FORM 7A




[See rule 10(1)]

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

Election to the House of the People from the 34-Sasaram (SC) Parliamentary constituency.

S. No.	Name of Candidate	Candidate's Photo	Address of Candidate	Party Affiliation	Symbol Allotted
1	2	3	4	5	6
(i) Candidates of recognized National and State Political Parties					
1	CHHEDI PASWAN		Vill- TAKIYA, PO-TAKIYA, PS-SASARAM, DIST.- ROHTAS, BIHAR	BHARATIYA JANATA PARTY	Lotus
2	MANOJ KUMAR		Vill- SAKRI, PO-KUDRA, PS-KUDRA, DIST.- KAIMUR	BAHUJAN SAMAJ PARTY	Elephant
3	MEIRA KUMAR		D-1029, NEW FRIENDS COLONY, P.O + P.S. - NEW FRIENDS COLONY, NEW DELHI, 110025	INDIAN NATIONAL CONGRESS	Hand
(ii) Candidates of registered Political Parties (other than recognized National and State Political parties.)					
4	DHARMRAJ PASWAN		Vill- BHOREYAN, PO- KHARENDA, DIST.-KAIMUR- 821102	LOK JAN VIKAS MORCHA	Cake
5	NIRMALA DEVI		PRAKHAND COLONY, NAGAR PARISHAD, BUXAR, ANCHAL-BUXAR DIST.- BUXAR	PRAGATISHIL SAMAJWADI PARTY (LOHIA)	Key

S. No.	Name of Candidate	Candidate's Photo	Address of Candidate	Party Affiliation	Symbol Allotted
1	2	3	4	5	6
6	VIDYA JYOTI		Vill- BHIKHARIDIH, PO- NONSARI, PS- NOKHA, DIST.-ROHTAS	BAHUJAN MUKTI PARTY	Cot
7	SATYA NARAYAN RAM		Vill- LARIYAN, PO- BAMHAUR (KHAS) PS- MOHANIA, DIST.-KAIMUR	AMBEDKARITE PARTY OF INDIA	Coat
(iii) Other Candidates.					
8	ASHOK KUMAR PASWAN		Vill- BHOKHARI, PO- SAITHA PS- SONHAN, DISTT- KAIMUR (BIHAR)	INDEPENDENT	Bread
9	ASHOK BAITHA		Vill- HATHINI, PO- HATHINI, PS- NOKHA, DISTT- ROHTAS	INDIPENDENT	Cup & Saucer
10	RAGHUNI RAM SHASTRI		Vill- BIRHARA, PO- PURHARA, PS- HASPURA, DIST.- AURANGABAD (BIHAR)	INDEPENDENT	Saw

S. No.	Name of Candidate	Candidate's Photo	Address of Candidate	Party Affiliation	Symbol Allotted
1	2	3	4	5	6
11	RAJANIKANT CHOUDHARY		Vill- SAPNAUTIYA, PO- SAITHA, PS- SONHAN, DIST.- KAIMUR(BHAB UA)	INDEPENDENT	Tractor Chalata Kisan
12	RAMEKBAL RAM		Vill- BISHRAMPUR, PO- CHHOTKI CHENARI, PS- SHIVSAGAR, DISTT- ROHTAS,	INDEPENDENT	Gas Cylinder
13	SATYA NARAYAN PASWAN		Vill- BAHERI, PO- AKHTIYARPUR PS- KARGAHAR, DIST.-ROHTAS, BIHAR	INDEPENDENT	Scissors

PLACE :- KAIMUR(BHABUA)

DATE :- 02-05-2019






Sd./Illegible,
Returning Officer
34-Sasaram (SC) Parliamentary Constituency.

प्ररूप 7क

नियम 10 (1) देखिए




निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

35-काराकाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

क्र.य.	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटो	अभ्यर्थी का पता	दल संबद्धता	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4	5	5
(i) मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी					
1	उपेन्द्र कुशवाहा		ग्राम+पोस्ट- जावज, थाना- महनार, जिला- वैशाली	राष्ट्रीय लोक समता पार्टी	छत का पंखा
2	महाबली सिंह		ग्राम- खिरी, पोस्ट+थाना- भगवानपुर, जिला- कैमूर (भभुआ)	जनता दल (यूनायटेड)	तीर
3	राज नारायण तिवारी		ग्राम+पोस्ट- अकोढ़ा, थाना- दिनारा, प्रखण्ड- दिनारा, जिला- रोहतास	बहु जन समाज पार्टी	हाथी
(ii) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न)					
4	आरिफ इसाइन हुसैन		ग्राम- लांजी, पोस्ट+थाना- चेनारी, जिला- रोहतास	जनता दल राष्ट्रवादी	डोली
5	उषा शरण		ग्राम+पोस्ट- हिच्छन विगहा, थाना- दाउदनगर, जिला- औरंगाबाद (बिहार)	शोषित समाज दल	आरी

6	कमलेश राम (प्रसाद)		ग्राम+पोस्ट- कुरुर, थाना- काराकाट (गोडारी), जिला- रोहतास	सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी	एअरकंडीस्नर
7	गोरख राम		मोहल्ला- अम्बेदकर कॉलोनी, वशिष्ठनगर, पोस्ट+थाना- आरा नवादा, जिला- भोजपुर	वोटर्स पार्टी इण्टरनेशनल	गैस सिलेण्डर
8	घनश्याम तिवारी		ग्राम+पोस्ट- गोडारी, जिला- रोहतास (बिहार), पिन- 802214	समाजवादी पार्टी	साइकिल
9	ज्योति रश्मि		धनटोलिया, पानी टंकी, वार्ड नं०- 28, पोस्ट+थाना- डिहरी, जिला- रोहतास	राष्ट्र सेवा दल	सूप
10	नन्द किशोर यादव		न्यू एरिया, मौलाबाग, दाउदनगर, जिला- औरंगाबाद (बिहार), पिन- 824143	स्वराज पार्टी (लोकतांत्रिक)	ट्रैक्टर चलाता किसान
11	पृथ्वी नाथ प्रसाद		ग्राम- छपियाँ, पोस्ट-केशरी के मठियाँ, थाना- एकमा, जिला- सारण	असली देशी पार्टी	बोतल
12	प्रकाश चन्द्र गोयल		ग्राम- असनी, पोस्ट-सहदेव खाप, थाना- मगध विश्वविद्यालय बोधगया, जिला- गया (बिहार)- 824234	पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक)	सेब
13	प्रदीप चौहान		ग्राम- ईटार, पोस्ट- तेमुड़ा, थाना- पौथु, जिला- औरंगाबाद (बिहार)	बिहार लोक निर्माण दल	बक्सा

14	मनोज सिंह कुशवाहा		मोहल्ला- खिलनगंज, वार्ड नं०- 31, पोस्ट+थाना- सासाराम, जिला- रोहतास (बिहार)	जय प्रकाश जनता दल	डीजल पम्प
15	ममता पाण्डेय		ग्राम+पोस्ट- इन्दौर, थाना- दिनारा, जिला- रोहतास	राष्ट्रीय समता पार्टी (सेकुलर)	ट्रक
16	मोहम्मद अतहर हुसैन		ग्राम+पोस्ट+थाना- दाउदनगर, जिला- औरंगाबाद	अम्बेडकर नेशनल काँग्रेस	ग्रामोफोन
17	राजा राम सिंह		ग्राम+पोस्ट- एकौनी, वाया- दाउदनगर, जिला- औरंगाबाद, पिन- 824113	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट-लेनिनिस्ट) (लिबरेशन)	तीन सितारों वाला झंडा
18	रामजी सिंह कान्ता		मोहल्ला- राजेशनगर, गंगटी रोड, पोस्ट- औरंगाबाद, जिला- औरंगाबाद	अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक (क्रांतिकारी)	शतरंज बोर्ड
19	शशिकान्त सिंह		ग्राम- उकुर्मी, पोस्ट+थाना- ओबरा, जिला- औरंगाबाद (बिहार)	भारतीय मोमिन फ्रंट	काँच का गिलास
(iii) अन्य अभ्यर्थी					
20	अभिराम प्रियदर्शी		ग्राम- बेरी, पोस्ट- लट्टा, थाना- पौथू, जिला- औरंगाबाद (बिहार)	निर्दलीय	अलमारी
21	कुमार सौरभ		वार्ड संख्या-12, चितौड़ नगर, औरंगाबाद, थाना- औरंगाबाद जिला- औरंगाबाद - 824101	निर्दलीय	ऑटो-रिक्शा

22	धर्मेन्द्र सिंह		ग्राम- पड़रिया, पोस्ट- धुबडीहा, थाना- चरपोखरी, जिला- भोजपुर (आरा), पिन- 802207	निर्दलीय	मोतियों का हार
23	नीलम कुमारी		पाली रोड, सूर्या क्लिनिक, पो0+थाना- डिहरी, जिला- रोहतास (बिहार), पिन- 821307	निर्दलीय	बेबी वॉकर
24	पूनम देवी		ग्राम+पोस्ट- भानपुर, थाना- दिनारा, जिला- रोहतास (बिहार) - 802213	निर्दलीय	गुब्बारा
25	राम अयोध्या सिंह		ग्राम+पोस्ट- धारुपुर, थाना- बिक्रमगंज, जिला- रोहतास (बिहार)	निर्दलीय	चूड़ियाँ
26	रामेश्वर सिंह		ग्राम- फतेपुर, पोस्ट- सिहाड़ी, थाना- हसपुरा, जिला- औरंगाबाद	निर्दलीय	फलों से युक्त टोकरी
27	वासुदेव हजारिका		हजारिका हाउस, स्टेशन रोड, डालमियानगर, वार्ड नं0- 10, पोस्ट- डालमियानगर, थाना- डिहरी, जिला- रोहतास (बिहार) - 821305	निर्दलीय	बल्ला

स्थान :-

तारीख :-

(ह0) अस्पष्ट,

निर्वाची पदाधिकारी,







35-काराकाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।









FORM 7A






[See rule 10(1)]

LIST OF CONTESTING CANDIDATES




Election to the House of the People from the 35-KARAKAT Parliamentary Constituency






S. No.	Name of Candidate	Candidate Photo	Address of Candidate	*Party Affiliation	Symbol Allotted
1	2	3	4	5	6
(i) Candidates of Recognized National and State Political Parties					
1	UPENDRA KUSHWAHA		VILL+PO- JAWAJ, PS- MAHNAR, DIST- VAISHALI	Rashtriya Lok Samta Party	Ceiling Fan
2	MAHABALI SINGH		VILL- KHIRI, PO+PS- BHAGWANPUR, DIST- KAIMUR (BHABHUA)	Janata Dal (United)	Arrow
3	RAJ NARAYAN TIWARI		VILL+PO- AKODHA, PS- DINARA, BLOCK- DINARA, DIST- ROHTAS	Bahujan Samaj Party	Elephant
(ii) Candidates of registered Political Parties (other than recognized National and State Political Parties)					
4	ARIF ISAIN HUSAIN		VILL- LANJI, PO+PS- CHENARI, DIST- ROHTAS	Janta Dal Rashtravadi	Dolli
5	USHA SHARAN		VILL+PO- HICHCHHAN VIGHA, PS- DAUDNAGAR, DIST- AURANGABAD (BIHAR)	Shoshit Samaj Dal	Saw
6	KAMLESH RAM (PRASAD)		VILL+PO- KURUR, PS- KARAKAT, (GORARI), DIST- ROHTAS	Suheldev Bhartiya Samaj Party	Air Conditioner

7	GORAKH RAM		MOHALLA- AMBEDKAR COLONY, BASHISHTHAGAR, PO+PS- ARRAH NAWADA, DIST- BHOJPUR	Voters Party International	Gas Cylinder
8	GHANSHYAM TIWARI		VILL+PO- GORARI, DIST- ROHTAS (BIHAR) - 802214	Samajwadi Party	Bicycle
9	JYOTI RASHMI		DHANTOLIA, PANI TANKI, WARD NO- 28, PO+PS- DEHRI, DIST- ROHTAS	Rashtra Sewa Dal	Winnower
10	NAND KISHOR YADAV		NEW AREA, MAULABAG, DAUDNAGAR, DIST- AURANGABAD (BIHAR), PIN- 824143	Swaraj Party (Loktantrik)	Tractor Chalata Kisan
11	PRITHVI NATH PRASAD		VILL- CHHAPIYA, PO- KESHARI KE MATHIYA, PS- EKMA, DIST- SARAN	Asli Deshi Party	Bottle
12	PRAKASH CHANDRA GOYAL		VILL- ASANI, PO- SAHDEV KHAP, PS- MAGADH UNIVERSITY BODHGAYA, DIST- GAYA (BIHAR) - 824234	Peoples Party of India (Democratic)	Apple
13	PRADEEP CHOUHAN		VILL- ITAR, PO- TEMUDA, PS- PAUTHU, DIST- AURANGABAD (BIHAR)	Bihar Lok Nirman Dal	Box
14	MANOJ SINGH KUSHVAHA		MOHALLA- KHILANGANJ, WARD NO- 31, PO+PS- SASARAM, DIST- ROHTAS (BIHAR)	Jai Prakash Janata Dal	Diesel Pump

15	MAMTA PANDEY		VILL+PO- INDAUR, PS- DINARA, DIST- ROHTAS	Rashtriya Samta Party (Secular)	Truck
16	MOHAMMAD ATAHAR HUSAIN		VILL+PO+PS- DAUDNAGAR, DIST- AURANGABAD	Ambedkar National Congress	Gramophone
17	RAJA RAM SINGH		AT+PO- AKAUNI, VIA- DAUDNAGAR, DIST- AURANGABAD, PIN- 824113	Communist Party of India (Marxist- Leninist) (Liberation)	Flag with Three Stars
18	RAMJEE SINGH KANTA		MOHALLA- RAJESHNAGAR, GANGATI ROAD, PO- AURANGABAD, DIST- AURANGABAD	Akhil Hind Forward Bloc (Krantikari)	Chess Board
19	SHASHIKANT SINGH		VILL- UKURMI, PO+PS- OBRA, DIST- AURANGABAD (BIHAR)	Bharatiya Momin Front	Glass Tumbler

(iii) Other (Independent Candidates)

20	ABHIRAM PRIYADARSHI		VILL- BERI, PO- LATTA, PS- PAUTHU, DIST- AURANGABAD (BIHAR)	Independent	Almirah
21	KUMAR SAURABH		WARD NO- 12, CHITTOR NAGAR, AURANGABAD, DIST- AURANGABAD - 824101	Independent	Auto- Rickshaw
22	DHARMENDRA SINGH		VILL- PARARIYA, PO- DHRUBDIHA, PS- CHARPOKHARI, DIST- BHOJPUR (ARRAH), PIN- 802207	Independent	Bead Necklace

23	NEELAM KUMARI		PALI ROAD, SURYA CLINIC, PO+PS-DEHRI, DIST-ROHTAS (BIHAR), PIN- 821307	Independent	Baby Walker
24	PUNAM DEVI		VILL+PO-BHANPUR, PS-DINARA, DIST-ROHTAS (BIHAR) - 802213	Independent	Balloon
25	RAM AYODHYA SINGH		VILL+PO-DHARUPUR, PS-BIKRAMGANJ, DIST- ROHTAS (BIHAR)	Independent	Bangles
26	RAMESHWAR SINGH		VILL- FATEHPUR, PO- SIHADI, PS-HASPURA, DIST-AURANGABAD	Independent	Basket Containing Fruits
27	BASUDEO HAZARIKA		HAZARIKA HOUSE, STATION ROAD, DALMIANAGAR, WARD NO- 10, PO-DALMIANAGAR, PS- DEHRI, DIST-ROHTAS (BIHAR) - 821305	Independent	Bat

स्थान :-

तारीख :-

(ह0) अस्पष्ट,
निर्वाची पदाधिकारी,
35-काराकाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।

प्ररूप 7 क
नियम (10) (1) देखिए,
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची
36—जहानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन 2019

क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का फोटो	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता*	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4	5	6
मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी					
1.	चन्द्रेश्वर प्रसाद		बी-118, हाउसिंग कोलनी, कंकड़बाग, पो०—लोहिया नगर, थाना—कंकड़बाग, जिला—पटना	जनता दल (यूनायटेड)	तीर
2.	नित्यानंद सिंह		ग्राम—खानकुलीपुर, पो+थाना+जिला—अरवल	बहु जन समाज पार्टी	हाथी
3.	सुरेन्द्र प्रसाद यादव		मु०—चिड़ैयाटॉड पो०—एच०ओ०, थाना— रामपुर, जिला—गया।	राष्ट्रीय जनता दल	लालटेन
रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न)					
4.	अरविन्द कुमार		मु०—चित्रगुप्त नगर, पो०—कंकड़बाग, थाना—पत्रकार नगर, जिला—पटना	राजनैतिक विकल्प पार्टी	कैंची
5.	अरुण कुमार		ग्राम—मनियावाँ, पो०—काजीसराय, थाना— काको, जिला—जहानाबाद	राष्ट्रीय समता पार्टी (सेकुलर)	ट्रक
6.	अविनाश कुमार		ग्राम—भगवानपुर पो०—अषाढी, थाना—मोफासिल जिला—नवादा	भारतीय बहु जन कांग्रेस	मोतियों का हार

7.	उमा शंकर वर्मा		ग्राम-थाना विगहा, पो०-दौलतपुर, थाना- घोसी, जिला-जहानाबाद पिन-804432	सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट)	बैटरी टार्च
8.	कुन्ती देवी		ग्राम-बदहर, पोस्ट-सुरुंगापुर, थाना+जिला-जहानाबाद	कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट-लेनिनिस्ट) (लिबरेशन)	तीन सितारों वाला झंडा
9.	मीरा कुमारी यादव		ग्राम-हैबतपुर, पो०-भोजपुर, थाना- खुसरूपुर, जिला-पटना पिन-803202	शोषित समाज दल	आरी
10.	राजेन्द्र पासवान		ग्राम-लोसधानी, पो०-सारसु, जिला-गया 805109	लोक जन विकास मोर्चा	कप और प्लेट
11.	रामजी केवट		ग्राम टोला सदसीचक, पो०-सलारपुर, थाना+जिला- जहानाबाद	राष्ट्रीय महान गणतन्त्र पार्टी	आदमी व पाल युक्त नौका
12.	सुनील कुमार		ग्राम-धरहरा, पो०-इढवाँ, थाना-मेन, जिला-गया	पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक)	मेज
अन्य अभ्यर्थी					
13.	चन्द्र प्रकाश		ग्राम-मीरा बिगहा, पो०-कलानौर, थाना-मखदुमपुर, जिला-जहानाबाद	निर्दलीय	टेलीफोन

स्थान : जहानाबाद
तारीख : 02/05/2019







(ह०) अस्पष्ट,
रिटर्निंग ऑफिसर,
36-जहानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।







FORM 7 A


[See Rule 10 (1)]

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

Election to the House of the People/Legislative Assembly from the **36-Jehanabad Parliamentary Constituency.**

S.No.	Name of Candidate	Candidate Photo	Address of candidates	*Party Affiliation	Symbol allotted
1	2	3	4	5	6
Candidates of recognised National and State Political Parties					
1.	CHANDESHWAR PRASAD		B-118, Housing Colony, Kankarbagh, P.O.- Lohia Nagar, P.S.- Kankarbagh, Patna-800020	Janata Dal (United)	Arrow
2.	NITYA NAND SINGH		Vill-Khan Kulipur, PO+PS+Dist- Arwal	Bahujan Samaj Party	Elephant
3.	SURENDRA PRASAD YADAV		Moh- Chiraiyatand, PS- Rampur, P.O- Rampur, Dist- Gaya- 823001	Rashtriya Janata Dal	Hurricane Lamp
Candidates of registered political parties (other than recognised National and State Political Parties)					
4.	ARBIND KUMAR		Mohalla- Chitragupta Nagar P.O.- Kankarbagh, P.S.- Patrakar Nagar, Dist- Patna Pin-800020	Rajnaitik Vikalp Party	Scissors
5.	ARUN KUMAR		Village- Maniyawan, P.O- Kajisara, P.S- Kako, District- Jehanabad	Rashtriya Samta Party (Secular)	Truck
6.	AVINASH KUMAR		Gram- Bhagwanpur, Post- Asudhi, P.S- Mufssil, Dist. Nawada, Pin-805111	Bharatiya Bahujan Congress	Bead Necklace

7.	UMA SHANKAR VERMA		Vill- Thana Bigha, Post- Daulatpur, PS.- Ghosi, Dist.- Jehanabad, Pin- 804432	Socialist Unity Centre of India (Communist)	Battery Torch
8.	KUNTI DEVI		At- Badhar, P.O- Surungapur, PS+Dist- Jehanabad, Bihar	Communist Party of India (Marxist- Leninist) (Liberation)	Flag With Three Stars
9.	MEERA KUMARI YADAV		Vill- Haibatpur, P.O-Bhojpur, P.S- Khusrupur, Dist.-Patna	Shoshit Samaj Dal	Saw
10.	RAJENDRA PASWAN		Vill-Losghani, P.O- Sarsa, Gaya- 805709	Lok Jan Vikas Morcha	Cup & Saucer
11.	RAMJEE KEWAT		R/o Tola Sadasichak, P.O- Salarpur, P.S.+Dist- Jehanabad	Rashtriya Mahan Gantantra Party	Boat with Man and Sail
12.	SUNIL KUMAR		Vill- Dharahara, PO-Dadhwani, PS-Main, Dist- Gaya, Pin Code- 804403	Peoples Party of India (Democratic)	Table

Other candidates					
13.	CHANDRA PRAKASH		Vill- Meera Bigha, P.O- Kalnour, P.S- Makhdumpur, Dist- Jehanabad	Independent	Telephone

Place: Jehanabad.
Date : 02/05/2019

Sd./Illegible,
Returning Officer,
36-Jehanabad Parliamentary
Constituency.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 602-571+50 डीटीपी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>